ना होगी हार मेरी | by Padma Sahu

मेरी अर्ज़ी लगी होगी चरणों में रखी होगी श्री श्याम प्रभु तुमने थोड़ी तो पढ़ी होगी लेलो दीनो के नाथ मेरे फैसले अपने हाथ ना होगी हार मेरी ना होगी हार मेरी

ओ श्याम अगर दिन रात तुम यूँ ही चले मेरे साथ ना होगी हार मेरी ना होगी हार मेरी चाहे जैसे हो हालात तुम खड़े रहे जो साथ ना होगी हार मेरी

है तेरे हाथ में मेरा आना वाला कल तेरी मर्ज़ी पर है मेरे सुख के हर पल तुम थामे रहना हाथ और देते रहे सौगात ना होगी हार मेरी ओ श्याम अगर दिन रात तुम यूँ ही चले मेरे साथ ना होगी हार मेरी ना होगी हार मेरी चाहे जैसे हो हालात तुम खड़े रहे जो साथ ना होगी हार मेरी ना होगी हार मेरी

इन आँखों के दर्पण अश्कों से धोते थे हम जब भी होते थे तनहा ही होते थे जयंत है तेरा गुलाम पदमा के बना दो काम चाहे जैसे हो हालात तुम खड़े रहे जो साथ ना होगी हार मेरी ओ श्याम अगर दिन रात तुम यूँ ही चले मेरे साथ ना होगी हार मेरी ना होगी हार मेरी चाहे जैसे हो हालात तुम खड़े रहे जो साथ ना होगी हार मेरी चाहे जैसे हो हालात तुम खड़े रहे जो साथ ना होगी हार मेरी